

## हरियाणा प्लाईवुड कॉन्क्लेव

सोमवार, 16 मई 2022

Valedictory Session: 14:55 to 16:20

- नमस्कार,
  - माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा; श्री मनोहर लाल जी;
  - माननीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री, असम; श्री चन्द्र मोहन पटवारी जी;
  - माननीय मंत्री, वन विभाग, शिक्षा, पर्यटन, संसदीय कार्य, कला एवम सांस्कृतिक विभाग और Hospitality विभाग, हरियाणा; श्री कँवर पाल जी;
  - मुख्यमंत्री, हरियाणा जी के मुख्य प्रधान सचिव; Sh. D. S. Dhesi ji
  - OSD States, Ministry of External Affairs; श्री राजशेखर जी
  - Director General and Secretary, Foreign Cooperation Department; श्री अनंत प्रकाश पांडे जी
  - भारत सरकार और हरियाणा सरकार के साथी अधिकारी, सम्मानित अतिथि, प्लाईवुड क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, देवियो और सज्जनो;

मैं, Foreign Cooperation Department, हरियाणा सरकार, की ओर से, आप सभी को इस महत्वपूर्ण दिन पर बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

- Export आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे व्यापारियों को अपने सामान के लिए विदेश में market प्रदान करते हैं। Foreign Cooperation के मुख्य कार्यों में से एक आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना और सभी व्यापारिक दलों के लाभ के लिए export को प्रोत्साहित करना है।

- Trade Surplus किसी भी देश में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जब अधिक export होते हैं, तो इसका मतलब है कि किसी देश के factories एवं industrial facilities से उच्च स्तर का Production हो रहा है, साथ ही इन factories को चलाने के लिए अधिक संख्या में लोगों को ज़रूरत होती है और रोज़गार के नए अवसर पैदा होते हैं ।
- जब कोई कंपनी अच्छी quality के सामानों का export करती है, तो उससे पूरी दुनिया में हमारे देश की छवि अच्छी बनती है। उससे देश में पूंजी प्रवाह बढ़ता है, जो consumer spending को प्रोत्साहित करती है और आर्थिक विकास में योगदान देता है।
- माननीय मुख्यमंत्री जी के visionary नेतृत्व में हरियाणा हमेशा अपनी innovative policies के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाने में सबसे आगे रहा है ।
- हरियाणा सरकार निरंतर रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और राज्य में उपलब्ध industrial ecosystem को बेहतर बनाना की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।
- "Go Global Approach" के माध्यम से हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्यमंत्री ने Foreign Cooperation Department का गठन किया है ताकि निवेश को विदेश में बढ़ावा दिया जा सके, व्यापार में वृद्धि हो सके, युवाओं को रोजगार मिल सके और प्रवासी हरियाणवी के कल्याण के लिए कार्य किया जा सके।

- हाल के दिनों में, Foreign Cooperation Department ने हरियाणा और विदेशी देशों के बीच export को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय संबंध (bilateral relation) को बढ़ाने के लिए पहल की है:
  - Haryana-Africa Conclave, Series – 1 – 28<sup>th</sup> & 29<sup>th</sup> October 2021.
  - Haryana-Latin American & Caribbean Meet – 26<sup>th</sup> March 2022.
  - Haryana-Ethiopia Investment Commission Meet – 7<sup>th</sup> & 8<sup>th</sup> April 2022.
- मैं इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा कि Foreign Cooperation Department 40 से अधिक देशों के साथ जुड़ा हुआ है एवम पारस्परिक लाभ और हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारों / संस्थानों के साथ 5 agreement sign कर चुका है।
- हरियाणा सरकार ने कुछ और पहल भी की है
  - विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से Foreign Cooperation Department ने यूक्रेन में हरियाणवी छात्रों की सक्रिय रूप से सहायता की और रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन से उनकी वापसी प्रबंध किया
  - Foreign Cooperation Department विदेश में रहने वाले हरियाणवी डायस्पोरा को emergency में और कानूनी मुद्दों आदि में भी मदद करता रहा है।
  - हमने कोविड-19 के खिलाफ हरियाणा की लड़ाई में योगदान दिया।
  - हमने दुनिया के विभिन्न देशों में फंसे लोगों को वापस लाने में भी मदद की।

- मुख्यमंत्री जी की अंत्योदय की भावना को मन में रखते हुए foreign cooperation department आपके शहर में आया है और आपके सहयोग से यह प्रोग्राम आयोजित किया है।
- Yamunangar में आयोजित इस पहले हरियाणा प्लाइवुड कॉन्क्लेव में आपकी उपस्थिति के लिए मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।
- आप सभी के सहयोग एवम भागीदारी के लिए एक बार फिर धन्यवाद।

जय हिन्द ।